

8 अनुमानित आयकर का रेडीरेकनर

Ready Reckoner for Estimated Income Tax

वित्त अधिनियम 2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए

कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से ही अर्थात् माह अप्रैल में ही, अनुमानित आयकर का आंकलन करना आवश्यक होता है, परंतु कर्मचारी प्रायः ऐसा नहीं करते अतः नियोक्ता पिछले वर्ष 2015-16 की दर से ही, आयकर (TDS) की कटौती प्रतिमाह करता है, इसलिए आप तुरंत निम्न टेबल की सहायता से शेष देय आयकर की गणना कर, नियोक्ता को सूचित करें, नहीं तो आपको अधिक आयकर काटे जाने पर रिफंड हेतु आयकर विभाग के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। यहां पर, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए, अनुमानित आयकर का आंकलन का गणना टेबल दिया जा रहा है — जिसमें मासिक करयोग्य वेतन = मासिक वेतन - करमुक्त भत्ते (वाहन/मकान किराया भत्ता आदि) — प्रोफेशनल टैक्स। अन्य आय = अन्य श्रोतों से होने वाली आय जैसे — बैंक जमा से प्राप्त ब्याज, NSC से प्राप्त ब्याज, आदि।

निवेश की कुल राशि = निवेश (u/s 80C + u/s 80CCC + u/s 80CCD + u/s 80CCD(1B)) (अधिकतम 2 लाख)

करयोग्य मासिक वेतन	वार्षिक वेतन	अन्य आय	सकल आय	निवेश की कुल राशि U/S 80CCE	कुल करयोग्य आय	कुल टैक्स + एजुकेशन सेस	मासिक देय देय आयकर
25000	300000	0	300000	30000	270000	0	0
27000	324000	500	324500	54500	270000	0	0
29000	348000	500	348500	78500	270000	0	0
31000	372000	1000	373000	103000	270000	0	0
33000	396000	1000	397000	127000	270000	0	0
35000	420000	2000	422000	150000	272000	0	0
37000	444000	2000	446000	150000	296000	0	0
39000	468000	2000	470000	150000	320000	2060	172
41000	492000	3000	495000	150000	345000	4634	386
43000	516000	3000	519000	150000	369000	7105	592
45000	540000	3000	543000	150000	393000	9576	798
47000	564000	3000	567000	150000	417000	12047	1004
49000	588000	4000	592000	150000	442000	14621	1218
51000	612000	4000	616000	150000	466000	17092	1424
55000	660000	5000	665000	150000	515000	28840	2400
60000	720000	5000	725000	150000	575000	41200	3430
65000	780000	6000	786000	150000	636000	53770	4480
75000	900000	6000	906000	150000	756000	78490	6540
80000	960000	7000	967000	150000	817000	91050	7590
90000	1080000	7000	1087000	150000	937000	115770	9650
100000	1200000	7000	1207000	150000	1057000	140490	11710
110000	1320000	9000	1329000	150000	1179000	165620	13800
120000	1440000	9000	1449000	150000	1299000	190340	15860
130000	1560000	9000	1569000	150000	1419000	215060	17920
140000	1680000	10000	1690000	150000	1540000	239990	20000
150000	1800000	10000	1810000	150000	1660000	264710	22060